#### GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI DIRECTORATE OF EDUCATION: SCHOOL BRANCH OLD SECRETARIAT DELHI-110054

No.DE.23(32)/Sch.Br./2004/Vol.II/ 2 So

Dated: 28 2/14

## <u>Guidelines for Admission in Pre-primary/ Class-I in Sarvodaya Vidyalayas</u> (for Parents)

- Application forms for admission to Pre-primary (K.G.) and Class-I
  whichever is the entry level class in Government Sarvodaya Vidyalayas of
  the Directorate of Education, Govt. of NCT of Delhi can be obtained from
  the concerned Sarvodaya Vidyalayas from 03.03.2014 (Monday) to
  18.03.2014 (Tuesday)(both days inclusive) on all working days. Forms can
  also be downloaded from the Department's website www.edudel.nic.in.
- 2. Application forms, complete in all respect, will be received in the morning shift schools from 8.30 AM to 10.30 AM and in the evening shift schools from 2.30 PM to 4.30 PM from 03.03.2014 (Monday) to 17.03.2014 (Monday) (both days inclusive) on all working days. Children residing in the vicinity of the school (if a Sarvodaya Vidyalaya is not available in the vicinity, then residents within a radius of 3 k.m. of the schools) shall be eligible to apply.
- The following documents are required to be produced by the parent/ guardian at the time of Admission:
  - a. (i) Original Date of Birth Certificate issued by MCD or Any other local body or
    - (ii) Anganwadi record. or
    - (iii) Hospital/Auxiliary Nurse and Midwife(ANM) register record
    - (iv) An Undertaking by the Parents regarding Date of Birth as per Part-B of the Application Form
  - b. One passport size photograph of the child.
- 4. Selection of candidates will be done by draw of lots which will be held at 11.00 AM in the morning shift schools and 3.00 PM in the evening shift schools on 22.03.2014 (Saturday) in the presence of parents/guardians.
- Applications of only those children will be considered for admission who have completed four years of age as on 31.03.2014 for Pre-primary(child must be born between 1.04.2009 to 31.03.2010) and who have attained

- the age of five years as on 31.03.2014 for Class-I (child must be born between 1.04.2008 to 31.03.2009).
- 6. The list of children selected through the draw of lots will be displayed on the School Notice Board on 26.03.2014 (Wednesday) at 11.00 A.M. and admissions will be done from 27.3.2014 (Thursday) to 29.03.2014 (Saturday) on submission of requisite documents.
- In case of selected children the immunization certificate is to be submitted by the parents/guardians within 6 months from the date of admission.
- 8. Primary Classes will commence from 1<sup>st</sup> April, 2014 (Tuesday) and Preprimary from 4<sup>th</sup> April 2014 (Thursday)
- 9. Reservation of seats will be as follows:
  - a. 15% seats for Scheduled Caste candidates.
  - b. 7.5% seats for Scheduled Tribe candidates.
  - c. 3% seats for physically handicapped ( to be duly certified by a Govt. Hospital )
  - d. 2% for the wards for the employees of the Directorate of Education (1% for the wards of Ministerial staff and 1% for teacher's wards).
- 10. In the case of non-availability of candidates in the reserved categories, the vacant seats be given to the unreserved candidates as per the order of name in the waiting list.

(Dr.(Mrs.) Sunita Kaushik) Addl. D.E. (Schoool)

### प्राथमिक Primary/Class-

# APPLICATION FORM FOR ADMISSION TO PRIMARY (CLASS –I) IN SARVODAYA VIDYALAYAS OF DEPARTMENT OF EDUCATION, GOVT. OF NCT, DELHI. (FOR THE SESSION 2014-15)

(Note:- For children who complete the age of 5 years as on 31-03-2014)

प्रवेश आवेदन पत्र (सत्र 2014–15 के लिए)

शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के सर्वोदय विद्यालयों में प्राथमिक कक्षा 1 में दाखिले हेतु	
(कंवल जिन बच्चों की आयु दिनांक 31.3.2014 को 5 वर्ष पूर्ण हो रही है)	
PASTE HERE A PASSPORT SIZE	
विद्यालय का नाम PHOTO OF THE	
NAME OF THE SCHOOL	
(TO BE FILLED IN CAPITAL LETTERS) बच्चे का पासपोर्ट	
भाग क / PART A आकार का फोटो	
1.छात्र का नाम	
NAME OF THE STUDENT :	
2.लिंग पुरूष/महिला	
GENDER : MALE/ FEMALE	
3.जन्म तिथि अग्रेजी सन के अनुसार व)	
DATE OF BIRTH : IN FIGURES(अंको में)	
IN WORDS(शब्दो में)	
4. Aadhar No.आधार संख्या	
5 भाषा जिसके माध्यम से पढाना चाहते हैं MEDIUM OF INSTRUCTION	
६ माता का नाम	
MOTHER'S NAME	
7पिता का नाम	
FATHER'S NAME	
8 अभिभावक का नाम	
GUARDIAN'S NAME	
9.अनुसूचित जाति / अ.ज.जाति / अ.पि.व. / सा.	
SC / ST / OBC/ GEN.	
10.धर्म	
RELIGION	
11. व्यवसाय पिता / माता	
OCCUPATION OF FATHER MOTHER	
12. सभी स्रोतों से परिवार की मासिक आय/MONTHLY INCOME OF FAMILY (from all Sources)	
13. घर का पता / RESIDENTIAL ADDRESS	
13. 91 9/1 4/1/ RESIDENTIAL ADDRESS	
14. जन्म प्रमाण पत्र का विवरण	
(निम्न लिखित में से कौन सा संलग्न है, कृपया√ लगाएँ।)	
DETAILS OF DATE OF BIRTH CERTIFICATE	
(Please \infty which one of the following is attached)	
F) स्थानीय निकाय द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र	
Birth Certificate issued by Local Body	
B) हस्पताल / नर्स के रजिस्टर का रिकार्ड	
Hospital/Auxiliary Nurse and Midwife (ANM) register record C) आगंनवाडी रिकार्ड	
Anganwadi record	
D) जन्म तिथि के संदर्भ में अभिभावक द्वारा घोषणा पत्र	
Declaration of the age of the child by the parent or guardian.	
and by the parent of guardian.	
माता / पिता / अभिभावक के हस्ताक्षर	ĕ

PARENT'S/ GUARDIAN'S SIGNATURE

दिनाँक .....

DATED.....

#### भाग-ख Part - B घोषणा पत्र / Undertaking

I, Shri./Smt	Father/Mother/Guardian
of do hereby	Father/Mother/Guardian certify that the actual Date of Birth of my ward Kumar/
Kumari is (in fi to the best of my knowledge and I shall	gures(in words) not apply for change of Date of Birth in future.
	(Parent's Signature)
में, श्री / श्रीमती	शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि की वास्तविक जन्मतिथि मेरी जानकारी के
मेरे पुत्र/पुत्री	की वास्तविक जन्मतिथि मेरी जानकारी के
अनुसार (अंको में)	(शब्दो में) है। मैं भविष्य में
उसकी जन्मतिथि परिर्वतन के लिए क	जेई प्रार्थना पत्र <sup>ं</sup> नहीं दूँगा/दूँगी।
	(
=======================================	(माता / पिता के हस्ताक्षर)
	गग−ग / PART –C
and the second of the second o	ने के बाद विद्यालय द्वारा भरा जाएगा)
(TO BE FILLED IN BY THE	SCHOOL AFTER SELECTION OF STUDENT)
5. प्रवेश संख्या	
ADMISSION NUMBER	
6. दाखिले की तारीख	
DATE OF ADMISSION	
<b>7</b> . कक्षा	
CLASS :	
8. भाग	
SECTION :	
प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर	
The state of the s	दाखिला इन्चार्ज के हस्ताक्षर
Signature of HOS	Signature of Admission In-charge
1	माग–घ ∕ Part –D
प्राप्ति रसीद / A	cknowledgement Receipt
	ते समय विद्यालय द्वारा अभिभावक को जारी करने हेत्)
	e Parents at the time of receiving the application form)
Described the second se	
	r/KumariS/o or D/o of for Admission to Class -1. His/Her application number
is	To Francoion to Stage 11. The Application Hamber
त्रमार / तमक	पन् /पनी शी /शीमनी
का कथा _1 में टाविट्या टेन आरेटन	पुत्र / पुत्री, श्री / श्रीमती । पत्र प्राप्त किया। आवेदन पत्र संख्या है।
यम प्रत्या न न पालिला हतु आपदन	। यत्र त्रापा प्रथा। आपप्र प्र प्रथ्या ह।
Signature of the Teacher Incharge	Name of the Teacher अध्यापक का नाम
अध्यापक इन्चार्ज के हस्ताक्षर	Name of the School विद्यालय का नाम
Date दिनोंक	School ID विद्यालय आईडी Stamp of the School विद्यालय की मोहर
- Control of the cont	Otamp of the ochool likeling of they

# APPLICATION FORM FOR ADMISSION TO PRE-PRIMARY CLASS (K.G.) IN SARVODAYA VIDYALAYAS OF DIRECTORATE OF EDUCATION, GOVT. OF NCT, DELHI. (FOR THE SESSION 2013-14)

(Note:- For children who complete the age of 4 years as on 31-03-2014)

प्रवेश आवेदन पत्र (सत्र **2014-15** के लिए)

(कंवल जिल बच्चों की आयु दिनांक 31.3.2014 को 4 वर्ष पूर्ण हो रही है) विद्यालय का नाम NAME OF THE SCHOOL  ### PART A  1.छात्र का नाम NAME OF THE STUDENT: 2.लिंग पुरुष / महिला GENDER: MALE/ FEMALE 3.जन्म तिथि अग्रेजी सन के अनुसार थ) DATE OF BIRTH: IN FIGURES (अंको में) IN WORDS (शब्दों में)  4. Aadhar No.आधार संख्या  5 माषा जिसके माध्यम से पढ़ाना चाहते हैं MEDIUM OF INSTRUCTION 6 माता का नाम MOTHER'S NAME 8 अभिभावक का नाम GUARDIAN'S NAME 9.अनुसूचित जाति / अ.ज.जाति / अ.प.व. / सा. SC / ST / OBC/ GEN. 10.धर्म RELIGION 1. व्यवसाय पिता / माता OCCUPATION OF FATHER MOTHER 2. सभी सोतों से परिवार की मासिक आय / MONTHLY INCOME OF FAMILY (from all Sources) 13. घर का पता / RESIDENTIAL ADDRESS  14. जन्म प्रमाण पत्र का विवरण (निम्न लिखित में से कोन सा संलग्न है, कृपया ✓ लगाएँ।) DETAILS OF DATE OF BIRTH CERTIFICATE (Please ✓ which one of the following is attached) E) स्थानीय निकाय द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र Birth Certificate issued by Local Body	शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय राजधाना क्षत्र दिल्ला क सर्वादय विद्यालया न पूर्व प्राथानक कर्ता न दाख	ल हतु
MAME OF THE SCHOOL  (TO BE FILLED IN CAPITAL LETTERS)  ### क / PART A  ### क / PART A  1.छात्र का नाम  NAME OF THE STUDENT: 2.लिंग पुरुष / महिला  GENDER : MALE/ FEMALE  3.जन्म तिथि अग्रेजी सन के अनुसार व )  DATE OF BIRTH : IN FIGURES(अंको में) IN WORDS(शब्दो में)  4. Aadhar No.आधार संख्या  5 माषा जिसके माध्यम से पढ़ाना चाहते हैं  MEDIUM OF INSTRUCTION 6 माता का नाम  MOTHER'S NAME  7년पता का नाम  FATHER'S NAME 8 अभिभावक का नाम  GUARDIAN'S NAME 9.अनुस्यित जाति / अ.ज.जाति / अ.पि.व. / सा.  SC / ST / OBC/ GEN  10.धमें  RELIGION 11. व्यवसाय पिता / माता  OCCUPATION OF FATHER  MOTHER  12. सभी सोतों से परिवार की मासिक आय / MONTHLY INCOME OF FAMILY (from all Sources)  13. धर का पता / RESIDENTIAL ADDRESS  14. जन्म प्रमाण पत्र का विवरण  (निम्न लिखित में से कीन सा संलग्म है, कृपया ✓ लगाएँ।)  DETAILS OF DATE OF BIRTH CERTIFICATE  (Please ✓ which one of the following is attached) E) स्थानीय निकाय द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र  Birth Certificate issued by Local Body		COEDE A
MAME OF THE SCHOOL    TO BE FILLED IN CAPITAL LETTERS    PHOTO OF THE CHILL   CHILL   THE SHOR HAVE   THE CHILL   THE CHILL   THE SHOR HAVE   THE SHOR HAVE   THE CHILL   THE SHOR HAVE	1981/94 91 714	
भाग क / PART A  बच्चे का पासपोर्ट आकार का फोटो हिम्पकार  2.लिंग पुरुष / महिला GENDER MALE/FEMALE 3.जन्म तिथि अग्रेजी सन के अनुसार व) DATE OF BIRTH: IN FIGURES (अंको में) IN WORDS (शब्दो में)  4. Aadhar No.आधार संख्या  5 माषा जिसके माध्यम से पढाना चाहते हैं MEDIUM OF INSTRUCTION 6 माता का नाम MOTHER'S NAME 7पिता का नाम FATHER'S NAME 8 अभिभावक का नाम GUARDIAN'S NAME 9.अनुसूचित जाति / अ.ज.जाति / अ.पि.व. / सा. SC / ST / OBC / GEN. 10.धर्म RELIGION 11. व्यवसाय पिता / माता OCCUPATION OF FATHER MOTHER 12. सभी सोतों से परिवार की मासिक आय / MONTHLY INCOME OF FAMILY (from all Sources) 13. घर का पता / RESIDENTIAL ADDRESS 14. जन्म प्रमाण पत्र का विवरण (निम्न लिखित में से कौन सा संलग्न है, कृपया ✓ लगाएँ।) DETAILS OF DATE OF BIRTH CERTIFICATE (Please ✓ which one of the following is attached) E) स्थानीय निकाय द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र Birth Certificate issued by Local Body	NAME OF THE SCHOOL PHOTO	OF THE
NAME OF THE STUDENT :  2. लिंग	(TO BE FILLED IN CAPITAL LETTERS)	ILD
1. छात्र का नाम NAME OF THE STUDENT: 2. लिंग	HIT O / PARIA	
2.लिंग	A WALL TO LIVE TO THE TOTAL TOT	
GENDER  MALE/FEMALE  3.जन्म तिथि अग्रेजी सन के अनुसार व)  DATE OF BIRTH: IN FIGURES(अंको में)  IN WORDS(शब्दो में)  4. Aadhar No.आधार संख्या  5 गाषा जिसके माध्यम से पढ़ाना चाहते हैं  MEDIUM OF INSTRUCTION  6 माता का नाम  MOTHER'S NAME  7पिता का नाम  FATHER'S NAME  8. अभिगावक का नाम  GUARDIAN'S NAME  9.अनुसूचित जाति / अ.ज.जाति / अ.पि.व. / सा.  SC / ST / OBC / GEN.  10.धर्म  RELIGION  11. व्यवसाय पिता / माता  OCCUPATION OF FATHER  MOTHER  12. सभी सोतों से परिवार की मासिक आय / MONTHLY INCOME OF FAMILY (from all Sources)  13. घर का पता / RESIDENTIAL ADDRESS  14. जन्म प्रमाण पत्र का विवरण  (भिन्न लिखित में से कौन सा संलग्न है, कृपया ✓ लगाएँ।)  DETAILS OF DATE OF BIRTH CERTIFICATE  (Please ✓ which one of the following is attached)  E) स्थानीय निकाय द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र  Birth Certificate issued by Local Body	NAME OF THE STUDENT	
3.जन्म तिथि अग्रेजी सन के अनुसार व) DATE OF BIRTH: IN FIGURES(अंको में) IN WORDS(शब्दों में)  4. Aadhar No.आधार संख्या  5 भाषा जिसके माध्यम से पढ़ाना चाहते हैं MEDIUM OF INSTRUCTION  6 माता का नाम MOTHER'S NAME  7िपता का नाम FATHER'S NAME  8 अभिभावक का नाम GUARDIAN'S NAME  9.अनुसूचित जाति / अ.ज.जाति / अ.पि.व. / सा. SC / ST / OBC / GEN.  10.धर्म RELIGION  11. व्यवसाय पिता / माता OCCUPATION OF FATHER  12. सभी स्रोतों से परिवार की मासिक आय / MONTHLY INCOME OF FAMILY (from all Sources)  13. घर का पता / RESIDENTIAL ADDRESS  14. जन्म प्रमाण पत्र का विवरण (मिन्न लिखित में से कौन सा संलग्न है, कृपया ✓ लगाएँ।) DETAILS OF DATE OF BIRTH CERTIFICATE  (Please ✓ which one of the following is attached) E) रथानीय निकाय द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र Birth Certificate issued by Local Body	2.लिंग पुरूष/महिला	
DATE OF BIRTH : IN FIGURES(अंको में)  IN WORDS(शब्दो में)  4. Aadhar No.आधार संख्या  5 भाषा जिसके माध्यम से पढाना चाहते हैं MEDIUM OF INSTRUCTION  6 माता का नाम MOTHER'S NAME  7पिता का नाम FATHER'S NAME  8 अभिभावक का नाम GUARDIAN'S NAME  9.अनुसूचित जाति / अ.ज.जाति / अ.पि.व. / सा. SC / ST / OBC / GEN.  10.धर्म RELIGION  11. व्यवसाय पिता / माता OCCUPATION OF FATHER  12. सभी सोतों से परिवार की मासिक आय / MONTHLY INCOME OF FAMILY (from all Sources)  13. घर का पता / RESIDENTIAL ADDRESS  14. जन्म प्रमाण पत्र का विवरण (निम्न लिखित में से कौन सा संलग्न है, कृपया / लगाएँ।) DETAILS OF DATE OF BIRTH CERTIFICATE  (Please / which one of the following is attached) E) स्थानीय निकाय द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र Birth Certificate issued by Local Body	GENDER : MALE/ FEMALE	
DATE OF BIRTH : IN FIGURES(अंको में)  IN WORDS(शब्दो में)  4. Aadhar No.आधार संख्या  5 भाषा जिसके माध्यम से पढाना चाहते हैं MEDIUM OF INSTRUCTION  6 माता का नाम MOTHER'S NAME  7पिता का नाम FATHER'S NAME  8 अभिभावक का नाम GUARDIAN'S NAME  9.अनुसूचित जाति / अ.ज.जाति / अ.पि.व. / सा. SC / ST / OBC / GEN.  10.धर्म RELIGION  11. व्यवसाय पिता / माता OCCUPATION OF FATHER  12. सभी सोतों से परिवार की मासिक आय / MONTHLY INCOME OF FAMILY (from all Sources)  13. घर का पता / RESIDENTIAL ADDRESS  14. जन्म प्रमाण पत्र का विवरण (निम्न लिखित में से कौन सा संलग्न है, कृपया / लगाएँ।) DETAILS OF DATE OF BIRTH CERTIFICATE  (Please / which one of the following is attached) E) स्थानीय निकाय द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र Birth Certificate issued by Local Body	3.जन्म तिथि अग्रेजी सन के अनुसार व)	
IN WORDS(शब्दो में )  4. Aadhar No.आधार संख्या  5 भाषा जिसके माध्यम से पढाना चाहते हैं MEDIUM OF INSTRUCTION  6 माता का नाम MOTHER'S NAME  7पिता का नाम FATHER'S NAME  8 अभिभावक का नाम GUARDIAN'S NAME  9.अनुसूचित जाति / अ.ज.जाति / अ.पि.व. / सा. SC / ST / OBC/ GEN  10.धर्म RELIGION  11. व्यवसाय पिता / माता OCCUPATION OF FATHER MOTHER  12. सभी सोतों से परिवार की मासिक आय / MONTHLY INCOME OF FAMILY (from all Sources)  13. घर का पता / RESIDENTIAL ADDRESS  14. जन्म प्रमाण पत्र का विवरण (निम्न लिखित में से कौन सा संलग्न है, कृपया ✓ लगाएँ I) DETAILS OF DATE OF BIRTH CERTIFICATE  (Please ✓ which one of the following is attached) E) स्थानीय निकाय द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र Birth Certificate issued by Local Body		
4. Aadhar No.आधार संख्या  5 भाषा जिसके माध्यम से पढ़ाना चाहते हैं MEDIUM OF INSTRUCTION  6 माता का नाम MOTHER'S NAME  7पिता का नाम FATHER'S NAME  8 अभिभावक का नाम GUARDIAN'S NAME  9.अनुसूचित जाति / अ.ज.जाति / अ.पि.व. / सा. SC / ST / OBC/ GEN.  10.धर्म RELIGION  11. व्यवसाय पिता / माता OCCUPATION OF FATHER MOTHER  12. सभी स्रोतों से परिवार की मासिक आय / MONTHLY INCOME OF FAMILY (from all Sources)  13. घर का पता / RESIDENTIAL ADDRESS  14. जन्म प्रमाण पत्र का विवरण (निम्न लिखित में से कौन सा संलग्न है, कृपया / लगाएँ।) DETAILS OF DATE OF BIRTH CERTIFICATE  (Please / which one of the following is attached) E) स्थानीय निकाय द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र Birth Certificate issued by Local Body		
5 भाषा जिसके माध्यम से पढाना चाहते हैं  MEDIUM OF INSTRUCTION 6 माता का नाम  MOTHER'S NAME 7िपता का नाम  FATHER'S NAME 8 अभिभावक का नाम  GUARDIAN'S NAME 9.अनुसूचित जाति / अ.ज.जाति / अ.पि.व. / सा.  SC / ST / OBC / GEN. 10.धर्म  RELIGION 11. व्यवसाय पिता / माता  OCCUPATION OF FATHER MOTHER 12. सभी सोतों से परिवार की मासिक आय / MONTHLY INCOME OF FAMILY (from all Sources) 13. घर का पता / RESIDENTIAL ADDRESS 14. जन्म प्रमाण पत्र का विवरण  (निम्न लिखित में से कीन सा संलग्न है, कृपया ✓ लगाएँ।)  DETAILS OF DATE OF BIRTH CERTIFICATE  (Please ✓ which one of the following is attached)  E) स्थानीय निकाय द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र  Birth Certificate issued by Local Body		
MEDIUM OF INSTRUCTION 6 माता का नाम MOTHER'S NAME	20 0 X	
6 माता का नाम	5 भाषा जिसके माध्यम से पढाना चाहते हैं	
MOTHER'S NAME_ 7िपता का नाम FATHER'S NAME_ 8 अभिभावक का नाम GUARDIAN'S NAME_ 9.अनुसूचित जाति / अ.ज.जाति / अ.पि.व. / सा. SC / ST / OBC/ GEN. 10.धर्म RELIGION_ 11. व्यवसाय पिता / माता OCCUPATION OF FATHER MOTHER 12. सभी स्रोतों से परिवार की मासिक आय / MONTHLY INCOME OF FAMILY (from all Sources) 13. घर का पता / RESIDENTIAL ADDRESS  14. जन्म प्रमाण पत्र का विवरण (निम्न लिखित में से कीन सा संलग्न है, कृपया ✓ लगाएँ।) DETAILS OF DATE OF BIRTH CERTIFICATE (Please ✓ which one of the following is attached) E) स्थानीय निकाय द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र Birth Certificate issued by Local Body	MEDIUM OF INSTRUCTION	
7पिता का नाम FATHER'S NAME 8 अभिभावक का नाम GUARDIAN'S NAME 9.अनुसूचित जाति / अ.ज.जाति / अ.पि.व. / सा. SC / ST / OBC / GEN. 10.धर्म RELIGION 11. व्यवसाय पिता / माता OCCUPATION OF FATHER MOTHER 12. सभी स्रोतों से परिवार की मासिक आय / MONTHLY INCOME OF FAMILY (from all Sources) 13. घर का पता / RESIDENTIAL ADDRESS  14. जन्म प्रमाण पत्र का विवरण (निम्न लिखित में से कौन सा संलग्न है, कृपया ✓ लगाएँ  ) DETAILS OF DATE OF BIRTH CERTIFICATE (Please ✓ which one of the following is attached) E) स्थानीय निकाय द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र Birth Certificate issued by Local Body		
FATHER'S NAME  8 अभिभावक का नाम GUARDIAN'S NAME  9.अनुसूचित जाति / अ.ज.जाति / अ.पि.व. / सा. SC / ST / OBC/ GEN.  10.धर्म RELIGION  11. व्यवसाय पिता / माता OCCUPATION OF FATHER MOTHER  12. सभी स्रोतों से परिवार की मासिक आय / MONTHLY INCOME OF FAMILY (from all Sources)  13. घर का पता / RESIDENTIAL ADDRESS  14. जन्म प्रमाण पत्र का विवरण (निम्न लिखित में से कौन सा संलग्न है, कृपया / लगाएँ।) DETAILS OF DATE OF BIRTH CERTIFICATE  (Please / which one of the following is attached) E) स्थानीय निकाय द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र Birth Certificate issued by Local Body		
8 अभिभावक का नाम GUARDIAN'S NAME  9.अनुसूचित जाति / अ.ज.जाति / अ.पि.व. / सा. SC / ST / OBC/ GEN.  10.धर्म RELIGION  11. व्यवसाय पिता / माता OCCUPATION OF FATHER MOTHER  12. सभी खोतों से परिवार की मासिक आय / MONTHLY INCOME OF FAMILY (from all Sources)  13. घर का पता / RESIDENTIAL ADDRESS  14. जन्म प्रमाण पत्र का विवरण (निम्न लिखित में से कौन सा संलग्न है, कृपया ✓ लगाएँ।) DETAILS OF DATE OF BIRTH CERTIFICATE  (Please ✓ which one of the following is attached) E) स्थानीय निकाय द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र Birth Certificate issued by Local Body		
GUARDIAN'S NAME_  9.अनुसूचित जाति / अ.ज.जाति / अ.पि.व. / सा.  SC / ST / OBC / GEN.  10.धर्म  RELIGION_  11. व्यवसाय पिता / माता  OCCUPATION OF FATHER		
9.अनुसूचित जाति / अ.ज.जाति / अ.पि.व. / सा. SC / ST / OBC / GEN.  10.धर्म RELIGION		
SC / ST / OBC / GEN.  10. धर्म  RELIGION_  11. व्यवसाय पिता / माता  OCCUPATION OF FATHER		
10.धर्म RELIGION		
RELIGION	Section 1 and the section of the sec	
OCCUPATION OF FATHER MOTHER		
12. सभी स्रोतों से परिवार की मासिक आय / MONTHLY INCOME OF FAMILY (from all Sources)	11. व्यवसाय पिता / माता	
12. सभी स्रोतों से परिवार की मासिक आय / MONTHLY INCOME OF FAMILY (from all Sources)	OCCUPATION OF FATHER MOTHER	
13. घर का पता / RESIDENTIAL ADDRESS  14. जन्म प्रमाण पत्र का विवरण (निम्न लिखित में से कौन सा संलग्न है, कृपया √ लगाएँ।) DETAILS OF DATE OF BIRTH CERTIFICATE  (Please √which one of the following is attached) E) स्थानीय निकाय द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र Birth Certificate issued by Local Body	12. सभी स्रोतों से परिवार की मासिक आय/MONTHLY INCOME OF FAMILY (from all	
14. जन्म प्रमाण पत्र का विवरण (निम्न लिखित में से कौन सा संलग्न है, कृपया√ लगाएँ।) DETAILS OF DATE OF BIRTH CERTIFICATE (Please √which one of the following is attached) E) स्थानीय निकाय द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र Birth Certificate issued by Local Body		
(निम्न लिखित में से कौन सा संलग्न है, कृपया√ लगाएँ।) DETAILS OF DATE OF BIRTH CERTIFICATE  (Please √which one of the following is attached) E) स्थानीय निकाय द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र Birth Certificate issued by Local Body	13. घर का पता / RESIDENTIAL ADDRESS	
E) स्थानीय निकाय द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र Birth Certificate issued by Local Body	(निम्न लिखित में से कौन सा संलग्न है, कृपया√ लगाएँ।)	
B) हस्पताल / नर्स के रजिस्टर का रिकार्ड Hospital/Auxiliary Nurse and Midwife (ANM) register record  C) आगंनवाडी रिकार्ड Anganwadi record  D) जन्म तिथि के संदर्भ में अभिभावक द्वारा घोषणा पत्र Declaration of the age of the child by the parent or guardian.	E) स्थानीय निकाय द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र Birth Certificate issued by Local Body  B) हस्पताल / नर्स के रिजस्टर का रिकार्ड Hospital/Auxiliary Nurse and Midwife (ANM) register record  C) आगनवाडी रिकार्ड Anganwadi record  D) जन्म तिथि के संदर्भ में अभिभावक द्वारा घोषणा पत्र	

दिनाँक .....

DATED.....

माता / पिता / अभिभावक के हस्ताक्षर

PARENT'S/ GUARDIAN'S SIGNATURE

### 6

#### भाग-ख Part - B घोषणा पत्र / Undertaking

I, Shri./Smt	Father/Mother/Guardian
	certify that the actual Date of Birth of my ward Kumar/
Kumari is (in f	gures(in words)
to the best of my knowledge and I shall	not apply for change of Date of Birth in future.
	(Parent's Signature)
	(r drent's signature)
Auto to the	भागा गर्नक घोषाम काता है कि
म, आ/आमता	शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि की वास्तविक जन्मतिथि मेरी जानकारी के
मर पुत्र/पुत्री	का वस्तिवक जन्मातीथ मरा जानकारा क
अनुसार (अंको में)	(शब्दो में)है। मैं भविष्य में
उसकी जन्मतिथि परिर्वतन के लिए व	र्होई प्रार्थना पत्र नहीं दँगा / दँगी।
	(माता / पिता के हस्ताक्षर)
======	(ARITY FARITY
a	नाग−ग / PART –C
1988 1989 1989 1989 1988 1988 1988 1988	ोने के बाद विद्यालय द्वारा भरा जाएगा)
No regional and the second and the s	
(TO BE FILLED IN BY THE	SCHOOL AFTER SELECTION OF STUDENT)
5. प्रवेश संख्या	
ADMISSION NUMBER	
6. दाखिले की तारीख	
DATE OF ADMISSION :	
7. कक्षा	
CLASS :	
8. भाग	
SECTION :	
प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर	दाखिला इन्चार्ज के हस्ताक्षर
Signature of HOS	Signature of Admission In-charge
	TITE TO PORT D
	भाग–घ / Part –D
	Acknowledgement Receipt
	ते समय विद्यालय द्वारा अभिभावक को जारी करने हेतु)
(To be issued by the Schools to the	ne Parents at the time of receiving the application form)
Received the application form of Kuma	ar/KumariS/o or D/o of
Shri/Smt	for Admission to Class Pre-Primary (K.G.). His/Her
application number is	to vice in the state of the sta
कुमार / कुमारी	पुत्र / पुत्री, श्री / श्रीमती खला हेतु आवेदन पत्र प्राप्त किया। आवेदन पत्र संख्या
का कक्षा पर्व प्राथमिक(के.जी) में दारि	खेला हेत आवेदन पत्र प्राप्त किया। आवेदन पत्र संख्या
81	3
mumin K.I.	
Signature of the Teacher Incharge	Name of the Teacher अध्यापक का नाम
अध्यापक इन्चार्ज के हस्ताक्षर	Name of the School विद्यालय का नाम
The second of th	School ID विद्यालय आईडी.
Date दिनोंक	Stamp of the School विद्यालय की मोहर